

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन में प्राइड का जशन मनाया जा रहा है

ब्रैम्पटन, ओन्टैरियो (1 जून, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने जून को प्राइड मंथ (Pride Month) के तौर पर मान्यता दी है। प्राइड 2022 का जशन मनाएं, जिसे टी.डी. (TD) के द्वारा, लाइव मनोरंजन, लोकल फूड विक्रेताओं आदि के साथ रविवार, 19 जून को दोपहर बाद 2 बजे से शाम 7 बजे तक, गार्डन सक्वेयर (Garden Square) में पेश किया जा रहा है।

ब्रैम्पटन के विविध मोजैक का जशन मनाने के लिए सिटी से जुड़ें, कम्युनिटी से कनेक्ट करें और अब तक भी, LGBTTIQQ2SA कम्युनिटी के द्वारा भुगते जा रहे मौजूदा मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाएं, खासकर जब यह इस वर्ष के थीम, *जस्टिस इज जॉय* (Justice is Joy) से संबंधित है।

प्राइड, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक मान्यता प्राप्त आंदोलन है, जो दया और हमदर्दी का जशन मनाता है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, व्यक्तिगत कार्यक्रम को वापस लौटते देखकर खुशी हो रही है, इस जशन में यह पेश किया जाएगा:

- ब्रैम्पटन के लोकल कलाकारों और डी.जे. (DJ) के द्वारा लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेज;
- हर्शील (Hasheel) x लेडी पिस्टा (Lady Pista) और मुख्य प्रदर्शक प्रियंका (Priyanka) के द्वारा लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेज;
- स्टोरी टाइम का मज़ा लें और फे एंड फ्लफी (Fay & Fluffy) से मुलाकात करें;
- लोकल कम्युनिटी साझेदारों के जानकारी बूथ;
- डाउनटाउन ब्रैम्पटन (Downtown Brampton) के लोकल रेस्टोरेन्ट्स के साथ फूड संबंधी साझेदारियां;
- मुफ्त चीज़ें और ऑन-साइट एक्टिवेशन्स; और
- द रोज़ पैटियो (The Rose Patio) पर आफ्टर पार्टी, जिसमें शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक लेडी पिस्टा की पेशकश होगी।

प्राइड 2022 के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, [brampton.ca/pride](http://brampton.ca/pride) पर जाएं।

### हवाले

“मुझे, हमारे व्यक्तिगत प्राइड जशन को वापस लौटते देखकर बेहद खुशी हो रही है। कम्युनिटी का मनोरंजन करने, जशन मनाने और उनका सशक्तिकरण करने के लिए हमारे पास कई प्रकार की प्रोग्रामिंग और परफॉर्मर हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एक मोजैक है और प्राइड, हमारी LGBTTIQQ2SA कम्युनिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने, उनका जशन मनाने और हिमायत करने का एक शानदार अवसर है। मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि 19 जून को इस वर्ष के व्यक्तिगत कार्यक्रम में हिस्सा लें।”

- *हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कापॉरिट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, अपने विविध मोजैक की हिमायत करने और इसका जशन मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम ने एक मज़ेदार और विचारपूर्ण प्रोग्राम तैयार किया है और हम हमारे व्यक्तिगत प्राइड कार्यक्रम में फिर हर किसी का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं।”

- *पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)